

तुरंत रिलीज के लिए

**ब्रैम्पटन ने अपडेट किया एन्वायरलमेंटल मास्टर प्लान रिलीज किया
प्लान, ब्रैम्पटन में स्थिरता और जलवायु संबंधी बदलाव के लिए लगभग
60 उच्च-प्रभाव वाली कार्रवाईयां पेश करता है।**

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (25 मार्च, 2021) – 24 मार्च को, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने सर्वसम्मति से, [ग्रीन सिटी \(Green City\)](#) बनने की अपनी प्रतिबद्धता पर आधारित, [ब्रैम्पटन ग्रो ग्रीन एन्वायरलमेंटल मास्टर प्लान \(ई.एम.पी.\) \(Brampton Grow Green Environmental Master Plan\) \(EMP\)](#) के अपडेट को मंजूरी दी।

इस महत्वपूर्ण दस्तावेज का अपडेट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की पर्यावरण संबंधी सफलताओं को उजागर करता है। साथ ही, यह बताता है कि 2014 में पहली बार ई.एम.पी. (EMP) रिलीज किए जाने के बाद, किस प्रकार पर्यावरण संबंधी प्राथमिकताएं विकसित हुई थीं। यह, इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए नया एक्शन प्लान (Action Plan) भी प्रदान करता है। एक्शन प्लान में, 60 उच्च-प्रभाव वाली कार्रवाईयां हैं, जो अगले दशक तक अधिक ग्रीन सिटी के लिए अवधि की योजनाएं पेश करती हैं। यह एक स्वस्थ, लचीले और पर्यावरण संबंधी स्थिर कम्युनिटी के तौर पर, ब्रैम्पटन को आगे बढ़ाएगा।

इन कार्रवाईयां में शामिल हैं, कम्युनिटी गार्डन्स (Community Gardens) प्रोग्राम का विस्तार करना, बी सिटी (Bee City) पदवी की ओर आगे बढ़ना, क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेशन प्लान (Climate Change Adaptation Plan) स्थापित करना और सिटी की फैसिलिटीज के लिए पानी-क्षमता संबंधी कार्यनीतियां तैयार करना।

पहले से ही जारी बुनियादी काम के आधार पर, सिटी और इसके साझेदार, जलवायु संबंधी बदलाव और पर्यावरण संबंधी स्थिरता हेतु उपाय करने के लिए, निवासियों, कारोबारियों और कम्युनिटी संगठनों को जानकारी देना, प्रोत्साहित करना और सक्षम बनाना जारी रखेंगे।

पृष्ठभूमि

ब्रैम्पटन ग्रो ग्रीन ई.एम.पी. (Brampton Grow Green EMP), अंदरूनी तौर पर और पूरी कम्युनिटी में पर्यावरण संबंधी स्थिरता में सुधार करने के लिए, सिटी का ब्लूप्रिंट है। पहली बार 2014 में रिलीज हुई, ई.एम.पी., एक दृष्टिकोण, निर्देशित सिद्धांतों, लक्ष्यों और प्रगति को तेज करने और इसका मूल्यांकन करने के लिए, एक अधिक स्थिर भविष्य, परफॉरमेंस मैट्रिक्स और लक्ष्यों के लिए कार्रवाईयां का सार पेश करता है।

ई.एम.पी., सिटी की कई योजनाओं, पॉलिसीज, प्रोजेक्टों और पद्धतियों में से कई के लिए प्रेरणादायक रहा है, जो ब्रैम्पटन की पर्यावरण संबंधी परफॉरमेंस, जीवन गुणवत्ता में सुधार कर रही हैं और ग्रेटर टोरंटो (Greater Toronto) तथा हेमिल्टन एरिया (Hamilton Area) में, पर्यावरण संबंधी लीडर बनने में सिटी की मदद की है।

हवाले

“ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल ने, सर्वसम्मति से नए ब्रैम्पटन ग्रीन एन्वायरलमेंटल मास्टर प्लान को मंजूरी दी है। ब्रैम्पटन एक ग्रीन सिटी है और हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि यह टर्म ऑफ काउंसिल प्राइरिटी, हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में दिखाई देती है। अपडेट किया प्लान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो अगले दशक तक ब्रैम्पटन में, कार्यनीति के तौर पर स्थिरता को आगे बढ़ाएगा।”

- *पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“हमें नया ब्रैम्पटन ग्रीन एन्वायरलमेंटल मास्टर प्लान रिलीज करने पर गर्व है। यह, ब्रैम्पटन के लिए एक अधिक स्थिर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई-अनुकूलित प्लान है। यह अपनी 60 उच्च-प्रभाव वाली कार्रवाइयां में, एक कार्पोरेट (सिटी) और कम्युनिटी लेंस शामिल करता है। मैं इस नए प्लान की पड़ताल करने के लिए हर किसी को आमंत्रित करता हूँ।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग; रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“हम ब्रैम्पटन में पैदा होने वाली ग्रीनहाउस गैस निकासियों को, 2050 तक 80 प्रतिशत कम करने के सफर पर हैं और अपडेट किया ब्रैम्पटन ग्रीन एन्वायरलमेंटल मास्टर प्लान, इस मिशन में सहायता करेगा। हमारे पास कम्युनिटी में असली बदलाव लाने और बेहतर भविष्य बनाने के लिए असरदार योजनाएं हैं।”

- *डग विलेन्स (Doug Whillans), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 2 और 6; मेम्बर, एन्वारयनमेंट एडवाइजरी कमेटी; सी.ई.ई.आर.पी. कम्युनिटी टास्क फोर्स, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी का स्टाफ, अपडेट किए ब्रैम्पटन ग्रीन एन्वायरलमेंटल मास्टर प्लान के द्वारा, स्थिर बदलाव पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस महत्वपूर्ण एक्शन प्लान को लागू करने के लिए, हमारे साझेदारों और स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे।”

- *डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

